

Zec

Chapter 13

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

יְרוּשָׁלַם	וּלְיִשְׁבֵי	הַדָּוִד	לְבֵית	נִפְתָּח	מִקְוֵה	יְהִיָּה	הַהוּא	בַּיּוֹם	1
यरूशलेम-के	और-के-लिए-बसनेवालों	दाऊद-के	के-लिए-घराने	खुला-हुआ	सीता	वह-हीगा	उस	में-दिन	
H3389	H3427	H1732			H4726	H1961	H1931	H3117	
					וּלְנִדְחָה:	לְחַטָּאת			
					और-के-लिए-अशुद्धता	के-लिए-पाप			
					H5079				

किन्तु उस समय, पानी का एक नया स्रोत दाऊद के परिवार तथा यरूशलेम रहने वाले लोगों के लिए फूट पड़ेगा। वह स्रोत उनके पापों को धो देगा और लोगों को शुद्ध कर देगा।

מִן־הָאָרֶץ	הַעֲצָבִים	שְׁמוֹת	אֶת־	אֲכָרִית	צְבָאוֹת	יְהוָה	וְנָאֵם	הַהוּא	בַּיּוֹם	וְהָיָה	2	
पृथ्वी	से-	मूर्तियों-की	नामों	को-	मैं-काट-दूँगा	सेनाओं-के	यहीवा	वाणी	उस	में-दिन	और-हीगा	
H0776		H6091	H8034	H0853	H3772		H3068	H5002	H1931	H3117	H1961	
אֶעֱבִיר	הַטְּמֵאָה	רוּחַ	וְאֶת־	הַנְּבִיאִים	אֶת־	וְגַם	עוֹד	יִזְכְּרוּ	וְלֹא			
मैं-हटाऊँगा	अशुद्धता-की	आत्मा	और-को-	नबियों	को-	और-भी	फिर	वे-याद-की-जाएंगी	और-नहीं			
	H2932	H7307	H0853	H5030	H0853	H1571	H5750	H2142	H3808			
									מִן־הָאָרֶץ:			
									पृथ्वी	से-		
									H0776			

सर्वशक्तिमान यहीवा कहता है, “उस समय, मैं पृथ्वी से सभी मूर्तियों को हटा दूँगा। लोग उनका नाम भी याद नहीं रखेंगे और मैं झूटे नबियों और अशुद्ध आत्माओं को भी पृथ्वी से हटा दूँगा।

וְאִמּוֹ	אָבִיו	אֶלָּיו	וְאִמְרוּ	עוֹד	אִישׁ	יִנְבֵּא	כִּי־	וְהָיָה	3			
और-माता-उसकी	पिता-उसका	उस-से	और-वे-कहेंगे	फिर	पुरुष	वह-भविष्यवाणी-करेगा	जब-	और-हीगा				
H0517	H0001	H0413	H0559	H5750	H0376	H5012		H1961				
אָבִיהוּ	וְדַקְרָהוּ	יְהוָה	בְּשֵׁם	דְּבַרְתָּ	שָׁקֵר	כִּי	תִחַּהֵב	לֹא	וְלִדְרוֹ			
पिता-उसका	और-वे-उसे-भेदेंगे	यहीवा-के	में-नाम	तूने-बोला	झूठ	क्योंकि	तू-जीएगा	नहीं	जन्मदाते-उसके			
H0001	H1856	H3068	H8034	H1696	H8267		H2421	H3808	H3205			
					בְּהִנְבְּאוֹ:	וְלִדְרוֹ	וְאִמּוֹ					
					में-उसके-भविष्यवाणी-करने	जन्मदाते-उसके	और-माता-उसकी					
					H5012	H3205	H0517					

यदि कोई व्यक्ति भविष्यवाणी करता है तो उसे दण्ड मिलेगा। यहाँ तक कि उसके माता—पिता, उसकी अपनी माँ और अपने पिता उससे कहेंगे, ‘तुमने यहीवा के नाम पर झूट बाला है। अतः तुम्हें मर जाना चाहिए!’ उसकी अपनी माँ और उसके अपन पिता भविष्यवाणी करने के कारण उसे छूरा घोष देंगे।

וְלֹא	בְּהִנְבְּאוֹ	מִחוֹזָיו	אִישׁ	הַנְּבִיאִים	יִבְשׁוּ	הַהוּא	בַּיּוֹם	וְהָיָה	4		
और-नहीं	में-उसके-भविष्यवाणी-करने	से-दर्शन-उसके	पुरुष	नबी	वे-लज्जित-होंगे	उस	में-दिन	और-हीगा			
H3808	H5012	H2384	H0376	H5030	H0954	H1931	H3117	H1961			
					כְּחֹשׁ:	לְמַעַן	שָׁעָר	אֲדַרְתָּ	וְלִבְשׁוֹ		
					झूठ-बोलने	के-लिए	बालों-का	चोगा	वे-पहनेंगे		
					H3584	H4616	H8181	H0155	H3847		

उस समय, नबी अपनी भविष्यवाणी और अपने दर्शन के लिये लज्जित होंगे। वे तरह का माटा वस्त्र नहीं पहनेंगे, जो यह प्रकट करे कि व्यक्ति नबी है। वे उन वस्त्रों को, भविष्यवाणी कहे जाने वाले झूट से, लोगों को धोखा देने के लिये नहीं पहनेंगे।

הַקְּנִי	אָדָם	כִּי	אֲנִכִּי	אֲדָמָה	עֲבָד	אִישׁ-	אֲנִכִּי	נָבִיא	לֹא	וְאָמַר	5
मुझे-खरीदा	आदमी-ने	क्योंकि	मैं	भूमि-की	जोतनेवाला	पुरुष-	मैं	नबी	नहीं	और-वह-कहेगा	
H7069	H0120		H0595	H0127	H5647	H0376	H0595	H5030	H3808	H0559	

מְנַעֲרָה :
से-जवानी-मेरी

वे लोग कहेंगे, 'मैं नबी नहीं हूँ मैं एक किसान हूँ। मैंने बच्चपन से किसान के रूप में काम किया है।'

הַכִּיתִי	אֲשֶׁר	וְאָמַר	יְהִי	בֵּין	הָאֵלֶּה	הַמִּזְכּוֹת	מָה	אֵלָיו	וְאָמַר	6
मैं-मारा-गया	जो	और-वह-कहेगा	हाथों-तेरे	बीच	ये	चोटे	क्या	उस-से	और-वह-कहेगा	
H5221		H0559	H3027	H0996	H0428	H4347	H4100	H0413	H0559	

בֵּית
घर
מֵאֵתָּהּ :
प्रेमियों-मेरे-के
ו
[H0157](#)

अन्य लोग कहेंगे, 'किन्तु तुम्हारे हाथों में ये घाव कैसे हैं?' वह कहेगा, 'यह चाट मुझे अपने मित्र के घर लगी।''

אֶת-	הָ	צִבְאוֹת	יְהוּהָ	נָאִם	עַמִּיתִי	גִּבּוֹר	וְעַל-	רַעִי	עַל-	עוֹרִי	חֶרֶב	7
को-	मार	सेनाओं-के	यहोवा	वाणी	साथी-मेरे	पुरुष	और-पर-	चरवाहे-मेरे	पर-	जाग	तलवार	
H0853	H5221		H3068	H5002	H5997	H1397		H7473		H5782	H2719	

הַצְעָרִים :
छोटों
עַל-
पर-
יָדִי
हाथ-मेरा
וְהַשְּׂבִיתִי
और-मैं-फेरूँगा
הַצֵּאן
भेड़ें
וְתַפּוּצִין
और-वे-तितर-बितर-होंगी
הַרְעָה
चरवाहे

सर्वशक्तिमान यहावा कहता है, "तलवार, गड़ेरिये पर चाट कर! मेरे मित्र को मार! गड़ेरिये पर प्रहार करो और भेड़ें भाग खड़ी होंगी और मैं उन छोटों को दण्ड दूँगा।

וְהַשְּׂלִישִׁית	יִגְעוּ	יִכְרְתוּ	בָּהּ	שְׁנַיִם	פִּי-	יְהוּהָ	נָאִם-	הָאָרֶץ	בְּכָל-	וְהָיָה	8
और-तीसरा	वे-मरेंगे	वे-काटे-जाएंगे	में-उस	दो	भाग-	यहोवा-की	वाणी-	पृथ्वी	में-सारी-	और-होगा	
H7992	H1478	H3772		H8147	H6310	H3068	H5002	H0776	H3605	H1961	

יְהוּהָ :
मैं-उस
וְהָיָה
वह-बचा-रहेगा
[H3498](#)

देश के दो तिहाई लोग चाट खाएंगे और मरेंगे। किन्तु एक तिहाई बचे रहेंगे।

הַכֶּסֶד	אֶת-	כְּצֶרֶךְ	וְצִרְפְּתִים	בְּאֵשׁ	הַשְּׂלִישִׁית	אֶת-	וְהַבְּאֵרִי	9
चाँदी	को-	जैसे-शुद्ध-किया-जाता-है	और-मैं-उनको-शुद्ध-करूँगा	में-आग	तीसरे	को-	और-मैं-लाऊँगा	
H3701	H0853	H6884	H6884	H0784	H7992	H0853	H0935	

אֶעֱנֶה	וְאָנִי	בְּשֵׁמִי	יִקְרָא	וְהוּא	הַזָּהָב	אֶת-	כְּבָרְךָ	וּבְחֻנָּיִם
मैं-उत्तर-दूँगा	और-मैं	मैं-नाम-मेरे	वह-पुकारेगा	वह	सोना	को-	जैसे-परखा-जाता-है	और-मैं-उनको-परखूँगा
	H0589	H8034	H7121	H1931	H2091	H0853	H0974	H0974

וְהוּא :
एलोहीम-मेरे
יְהוּהָ :
यहोवा
וְאָמַר :
वह-कहेगा
וְהוּא :
और-वह
וְהוּא :
वह
עַמִּי :
लोग-मेरे
וְאָמַרְתִּי :
मैंने-कहा
אֵתוֹ :
उसे
[H0430](#) [H3068](#) [H0559](#) [H1931](#) [H1931](#) [H0559](#) [H0853](#)

तब मैं उन बचे हुए लोगों की जाँच करूँगा। मैं उन्हें बहुत से कष्ट दूँगा। वे कष्ट उस आग की तरह होंगे, जिसे एक व्यक्ति चाँदी की शुद्धता की परख के लिये उपयोग करता है। मैं उनकी जाँच वैसे ही करूँगा, जैसे व्यक्ति सोने की जाँच करता है। तब वे सहायता के लिये मेरी पुकार करेंगे, और मैं उनकी सहायता करूँगा। मैं कहूँगा, 'तुम मेरे लोग हो!' और वे कहेंगे, 'यहोवा मेरा परमेश्वर है।''